



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938

No. 457]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017

का.आ. 509(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 478 तारीख 7 फरवरी, 2005, का.आ. 718 तारीख 3 मई, 2007, का.आ. 1852(अ) तारीख 27 जुलाई, 2009 द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में, मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा हजीरा — दहेज गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, यतः, भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने हेतु चाहिये, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन किये जाने का निर्णय लिया था;

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 2323 तारीख 27 जून, 2005, का.आ. 1329(अ) तारीख 22 मई, 2009, का.आ. 45(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2009, द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार का अर्जन किया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार कमशः अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी बाधाओं से मुक्त मैसर्स इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में, मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) में निहित किया था;

और, यतः, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (आर.जी.पी.एल.), जो कि दहेज—नागोथने ईथेन पाइपलाइन बिछा रही है, ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार, जो उपरोक्तानुसार मैसर्स इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में, मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) में निहित है, को मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बांटने की इच्छा जताई है;

और, यतः, मैसर्स आर.जी.पी.एल की दहेज—नागोथने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार को मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड के साथ बांटने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, जो मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में निहित किया गया था, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड, में भी निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : चोर्यासी	जिला : सुरत	राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वे सं./सब डिविजन सं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग.मी.
1	2	3	4	5

1) वकताणा 246* 00 06 11

तालुका : कामरेज	जिला : सुरत	राज्य : गुजरात		
1) शेखपुर	80*	00	13	98
2) कठोर	53*	00	01	60
3) खडसद	110*	00	01	90

*का.आ. 2938(अ), दिनांक 21.10.2015 में 6(4) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा.सं. एल.-14014/28/2015-जी.पी.-II]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2017.

S.O. 509(E).— Whereas by notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.478 dated 7th February, 2005, S.O.718 dated 3rd May, 2007 & S.O.1852(E) dated 27th July, 2009 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for the purpose of laying Hajira – Dahej Gas Pipeline by M/s Indian Petrochemicals Corporation Limited (now M/s Reliance Industries Limited) for transportation of natural gas;

And whereas, Government of India, after considering the reports submitted by the Competent Authority under sub-section(1) of Section 6 of the Act and on being satisfied that the said lands were required for laying the pipeline, decided to acquire the Rights of Users therein;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, Government of India declared acquisition of the Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for laying the said pipeline, vide notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2323 dated 27th June, 2005, S.O. 1329(E) dated 22nd May, 2009 & S.O. 45(E) dated 31st December, 2009;

And whereas, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India declared vesting the Rights of Users in the said lands for laying the pipeline in M/s Indian Petrochemicals Corporation Limited (Now Reliance Industries Limited) instead of Government of India, free from all encumbrances on the dates of publication of respective declarations;

And whereas, M/s Reliance Gas Pipelines Limited (RGPL), which is laying Dahej- Nagothane Ethane Pipeline, intends to share with M/s Reliance Industries Limited the Rights of Users in lands described in the schedule appended to this notification, which has been earlier vested in M/s Indian Petrochemicals Corporation Limited (Now Reliance Industries Limited) as mentioned above;

And whereas, M/s Reliance Industries Limited has consented to the sharing of the Rights of Users in the said lands with M/s Reliance Gas Pipelines Limited for the purpose of laying Dahej- Nagothane Ethane Pipeline.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India directs that the Rights of Users in the said lands, vested earlier in M/s Reliance Industries Limited, would also be vested in M/s Reliance Gas Pipelines Limited, free from all encumbrances from the date of publication of this declaration.

SCHEDULE

Taluka: CHORYASI		District : SURAT		State: GUJARAT	
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU			
		Hec	Are	Sq.m.	
1	2	3	4	5	
1) Waktana	246*	00	06	11	
Taluka: KAMREJ		District : SURAT		State: GUJARAT	
1) Shekhpur	80*	00	13	98	
2) Kathor	53*	00	01	60	
3) Khadsad	110*	00	01	90	

*Additional Area to 6(4) Notification S.O.2938(E), dated 21.10.2015.

[F.No. L-14014/28/2015-GP-II]
S. P. AGARWAL, Under Secy